



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 पौष 1941 (श10)

(सं0 पटना 15) पटना, शुक्रवार, 10 जनवरी 2020

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

17 दिसम्बर 2019

सं0 1/स्था0 (2) 02/2019-3925—अधिसूचना संख्या-769—सह-पठित ज्ञापांक-770 दिनांक-07.03.2019 के द्वारा कुल-568 पशु चिकित्सकों को चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन एवं निबंधन प्रमाण-पत्र एवं वैध स्थायी निबंधन की सत्यता की जाँच की प्रत्याशा में 6 (छः) माह के लिए औपबंधिक रूप से भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर सशर्त नियुक्त करते हुए विभागान्तर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर पदस्थापित किया गया था।

पुनः कतिपय जिलों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं निबंधन प्रमाण-पत्र की सत्यता की जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण उक्त नवनियुक्त पशु चिकित्सकों की औपबंधिक नियुक्ति अवधि को दिनांक 06.09.2019 से अगले 3 (तीन) महिने तक विस्तारित किया गया था।

कतिपय जिलों से पूर्ण रूप से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं बिहार पशु चिकित्सा परिषद से निबंधन प्रमाण-पत्र की सत्यता जाँच प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त रहने के कारण उक्त नवनियुक्त पशु चिकित्सकों औपबंधिक नियुक्ति अवधि को 06.12.2019 से अगले 3 (तीन) महिने तक विस्तारित किया जाता है।

2. अधिसूचना की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

आदेश से,
प्रेम कुमार गुप्ता “प्रेम”,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 15-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>